



भिन्नों का जोड़ (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{1}{5} + \frac{3}{7} =$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} =$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{7} =$$

$$\frac{1}{8} + \frac{2}{7} =$$

$$\frac{4}{3} + \frac{4}{9} =$$


$$\frac{7}{4} + \frac{7}{8} =$$

$$\frac{3}{4} + \frac{4}{6} =$$

$$\frac{3}{8} + \frac{5}{7} =$$

$$\frac{5}{9} + \frac{4}{3} =$$

$$\frac{6}{4} + \frac{5}{6} =$$



भिन्नों का जोड़ (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{1}{5} + \frac{3}{7} = \frac{22}{35}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{7} = \frac{11}{28}$$

$$\frac{1}{8} + \frac{2}{7} = \frac{23}{56}$$

$$\frac{4}{3} + \frac{4}{9} = \frac{16}{9} = 1\frac{7}{9}$$

$$\frac{7}{4} + \frac{7}{8} = \frac{21}{8} = 2\frac{5}{8}$$

$$\frac{3}{4} + \frac{4}{6} = \frac{17}{12} = 1\frac{5}{12}$$

$$\frac{3}{8} + \frac{5}{7} = \frac{61}{56} = 1\frac{5}{56}$$

$$\frac{5}{9} + \frac{4}{3} = \frac{17}{9} = 1\frac{8}{9}$$

$$\frac{6}{4} + \frac{5}{6} = \frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$$